

‘मृत प्रवाल’ भित्तियों का महत्त्व

प्रलिस के लयः

प्रवाल भित्तियों, तीन वृहद ब्लीचगि की घटनाएँ

मेन्स के लयः

‘मृत प्रवाल’ भित्तियों का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'क्वींसलैंड विश्वविद्यालय' (University of Queensland- UQ) की एक अनुसंधान टीम ने एक अध्ययन में पाया कि 'जीवित प्रवाल' की तुलना में 'मृत प्रवाल' के मलबे द्वारा अधिक जीवों को संरक्षण तथा समर्थन दिया जाता है ।

प्रमुख बडुः

- शोधकर्ताओं ने प्रवाल भित्तियों में जीवों के सर्वेक्षण के लिये 'मलबे में जैव विविधता के नमूना एकत्रीकरण (Rubble Biodiversity Samplers- RUBS) नामक एक त्रि-आयामी मुद्रति प्रवाल स्तंभ (एक प्रकार का कृत्रमि प्रवाल) का उपयोग कया ।
- RUBS की द्वारा एकत्रति जानकारी के आधार पर वैज्ञानिकों की टीम ने समय के साथ प्रवाल भित्तियों की जैव-विविधता में आए बदलाव का अध्ययन कया ।

प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs):

- प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर स्थति चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्सियम कार्बोनेट से नर्मति होती हैं ।
- वस्तुतः ये प्रवाल भित्तियाँ मूँगों सहति अनेक छोटे फ्लोरा तथा फौना की बस्तियाँ होती हैं ।

जीवति प्रवाल भित्तियाँ (Live Coral Reefs):

- प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव (कोरल पॉलिपि) होते हैं । इन प्रवालों का शैवाल जूजैथली (Zooxanthellae) के साथ सहजीवी संबंध पाया जाता है, अतः प्रवाल भित्तियाँ रंगीन होती हैं । इन प्रवाल भित्तियों को 'जीवति प्रवाल भित्ति' के रूप में जाना जाता है ।
- 'जीवति प्रवाल भित्तियाँ' (Live Coral Reefs) को पृथ्वी पर सर्वाधिक विविधता वाले पारस्थितिक तंत्र के रूप में माना जाता है ।

मृत प्रवाल भित्तियाँ (Dead Coral Reefs):

- जीवति प्रवाल भित्तियाँ तापमान परिवर्तन के प्रतबिहुत अधिक संवेदनशील होती हैं, अतः वैश्विक तापन से कोरल अर्थात मूँगों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाता है ।
- प्रदूषण, वैश्विक तापन या अन्य कसिी प्रकार की आवासीय परस्थितियों में परिवर्तन होने पर प्रवाल तनावग्रस्त हो जाते हैं तथा ये सहजीवी शैवाल को नषिकासति कर देते हैं, जसि 'कोरल ब्लीचगि' अथवा मृत प्रवाल के रूप में जाना जाता है ।

अध्ययन के प्रमुख नषिकर्षः

- 'जीवति' प्रवाल भित्तियाँ मत्स्य सहति अन्य समुद्री जीवों को संरक्षण और पोषण प्रदान करती हैं । अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि 'जीवति प्रवाल' के 'मृत प्रवाल' में बदलने के साथ प्रवाल भित्तियों द्वारा समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण में नषिाई जाने वाली भूमिका कम हो जाती है ।
- शोध कार्य के अनुसार, मृत प्रवाल भित्तियों के मलबे द्वारा भी समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण में व्यापक भूमिका नषिाई जाती है, अतः इसे नजरअंदाज नही कया जाना चाहयि ।

प्रवाल भित्तियों में जैव-विविधता:

- प्रवाल भित्तियों में व्यापक जैवविविधता पाई जाती है अतः इन्हें 'समुद्री वर्षावन' (Rainforests of the Sea) भी कहा जाता है।
- महासागरों की लगभग 25% मत्स्य प्रजातियाँ स्वस्थ प्रवाल भित्तियों पर निर्भर होती हैं।
- मत्स्य और अन्य जीवों की अनेक प्रजातियाँ आश्रय, भोजन, प्रजनन आदि के लिये प्रवाल भित्तियों पर निर्भर रहती हैं।
- सामान्यतः एक प्रवाल भित्ति पर मत्स्य, अकशेरुकी, पौधों, समुद्री कछुओं, पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों की 7,000 से अधिक प्रजातियाँ निर्भर रहती हैं।

प्रमुख प्रवाल वरिंजन की घटनाएँ:

- वर्ष 1998, वर्ष 2010 और वर्ष 2016 में हुई वृहद स्तरीय 'कोरल ब्लीचिंग' की घटनाओं को 'तीन वृहद ब्लीचिंग की घटनाओं' (Three Mass Bleaching Events) के रूप में जाना जाता है।
- 'कोरल ब्लीचिंग' की इन घटनाओं से भारत के पाँच प्रमुख भारतीय भित्तियों के क्षेत्र; अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारतीय तटरेखा एक प्राचीन और वृहद प्रवाल विविधता का क्षेत्र है, जो वृहद पारस्थितिकी तंत्र के लिये एक प्राकृतिक आवास प्रदान करती है।

नष्कर्ष:

- प्रवाल भित्तियों के संबंध में 'मृत प्रवाल' की भूमिका का अध्ययन 'प्रवाल भित्तियों' के प्रबंधन तथा संरक्षण में मदद करेगा तथा पर्यावरणवादियों के बीच प्रवाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक नया अवसर प्रदान करती है।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/importance-of-dead-coral-reefs>

